



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 660) पटना, शुक्रवार, 16 अगस्त 2013

वित्त विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2013

सं0 को0प्र0/स्था-19/2011-8398-वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000(यथा संशोधित 2011) को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**—(1)यह नियमावली बिहार लेखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 कहलायेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
2. उक्त नियमावली, 2000(यथा संशोधित 2011) की अनुसूची-V की कोटि (क) के क्रमांक-1 एवं 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं :-

अनुसूची-V

क- मूल वेतनमान का पद- लेखा पदाधिकारी का वेतन - 9300 - 34800, ग्रेड पे - 4800			
मूल वेतनमान का पद-वरीय लेखा पदाधिकारी का वेतन - 15600 - 39100 ग्रेड पे - 6600			
1.	वरीय लेखा पदाधिकारी/ वरीय कोषागार पदाधिकारी/ सहायक कोषागार पदाधिकारी ।	पदों की संख्या —111	लेखा पदाधिकारी के अलावा वरीय लेखा पदाधिकारी को भी आवश्यकतानुसार गैर -जिला एवं गैर-सचिवालय कोषागारों में वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जा सकेगा ।
3	सहायक आयुक्त/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी	पदों की संख्या -38	लेखा पदाधिकारी के अलावा वरीय लेखा पदाधिकारी को भी

			आवश्यकतानुसार भविष्य निधि निदेशालय में सहायक आयुक्त एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जा सकेगा ।
--	--	--	---

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 660-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>